



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आषाढ़ 1947 (श0)
(सं0 पटना 1156) पटना, बुधवार, 25 जून 2025

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना
9 मई 2025

सं० वि.प.स्था.-143/2023(नी.वि.) 1194(2)/वि.प.--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्मित बिहार वाहन चालक (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2005 तथा समय-समय पर संशोधित नियम एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त सहमति के आलोक में बिहार विधान परिषद् सचिवालय के चालक संवर्ग के कुल 20(बीस) स्वीकृत पदों का सम्पूरिवर्तन निम्न प्रकार किया जाता है:-

I. विभिन्न वेतनमानों (वेतन स्तर) में वाहन चालक के पदों का नामकरण निम्नानुसार होगा:-

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| (i) 3050-4590/- ₹
वेतन स्तर-02 | - वाहन चालक (साधारण कोटि) |
| (ii) 4000-6000/- ₹
वेतन स्तर-04 | - वाहन चालक (कोटि- II) |
| (iii) 4500-7000/- ₹
वेतन स्तर-05 | - वाहन चालक (कोटि- I) |
| (iv) 5000-8000/- ₹
वेतन स्तर-06 | - वाहन चालक (विशेष कोटि) |

II. विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या निम्नांकित अनुपात में होगी -

				पदों की संख्या
(i)	वाहन चालक (साधारण कोटि)	3050-4590/- ₹ वेतन स्तर-02	- 30 %	- 06
(ii)	वाहन चालक कोटि II	4000-6000/- ₹ वेतन स्तर-04	- 30 %	- 06
(iii)	वाहन चालक कोटि I	4500-7000/- ₹ वेतन स्तर-05	- 35 %	- 07
(iv)	वाहन चालक विशेष कोटि	5000-8000/- ₹ वेतन स्तर-06	- 05 %	- 01

कुल पदों की संख्या- 20(बीस)

III. साधारण कोटि (3050-4590/- ₹) (वेतन स्तर-02) से उच्चतर कोटियों में निम्नांकित रूप से प्रोन्नतियां दी जा सकेंगी-

(क)	वाहन चालक (साधारण कोटि)	(3050-4590/-) वेतन स्तर-02 से	वाहन चालक कोटि II	(4000-6000/-) वेतन स्तर-04 में ।
(ख)	वाहन चालक कोटि II	(4000-6000/-) वेतन स्तर-04 से	वाहन चालक कोटि I	(4500-7000/-) वेतन स्तर-05 में ।
(ग)	वाहन चालक कोटि I	(4500-7000/-) वेतन स्तर-05 से	वाहन चालक विशेष कोटि	(5000-8000/-) वेतन स्तर-06 में ।

सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से,
संजय कुमार,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1156-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>